

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन में तेज़ गति के लिए ज़ीरो सहनशीलता

### ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने सड़क संबंधी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 जुलाई, 2020) – 8 जुलाई को, सिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से, ऑटोमेटिड स्पीड एन्फोर्समेंट (ए.एस.ई.) (Automated Speed Enforcement) (ASE) लागू करने की मंजूरी दी। यह सिस्टम सालाना तौर पर 200 से अधिक स्थानों पर, स्पीड से होने वाली और ट्रैफिक-संबंधी घटनाओं को कम करने और ब्रैम्पटन में वाहन चलाने वाले सभी लोगों (यूजर्स) के लिए सड़क संबंधी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा।

इस समय, पांच स्थानों पर ए.एस.ई. (ASE) सूचना के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सितम्बर 2020 तक, इन स्थानों पर कैमरे लगा दिए जाएंगे:

- वार्ड 1: वोडन स्ट्रीट ईस्ट (Vodden Street East) (कैनेडी रोड (Kennedy Road) और सेंटर स्ट्रीट (Centre Street) के बीच में)
- वार्ड 2: रिचवेल ड्राइव नॉर्थ (Richvale Drive North) (कैनेडी रोड और सैंडलवुड पार्कवे (Sandalwood Parkway) के बीच में)
- वार्ड 3: रे लॉसन बुलेवार्ड (Ray Lawson Boulevard) (हुरोन्टैरियो स्ट्रीट (Huronario Street) और मैकलॉगलिन रोड (McLaughlin Road) के बीच में)
- वार्ड 8: एवोनडोल बुलेवार्ड (Avondale Boulevard) (ब्रैमली रोड (Bramalea Road) और बिर्चबैंक रोड (Birchbank Road) के बीच में)
- वार्ड 9: फर्नफोरेस्ट ड्राइव (Fernforest Drive) (बोवेअर्ड ड्राइव (Bovaird Drive) और सैंडलवुड पार्कवे के बीच में)

सिटी, सितम्बर 2020 तक 25 अतिरिक्त [कम्युनिटी सेफ्टी जोन्स \(Community Safety Zones\)](#) स्थापित करने के लिए काम कर रही है। स्टाफ, पूरे शहर में ए.एस.ई. को सहयोग करने के लिए अतिरिक्त कैमरे खरीदना भी शुरू करेगा। यह खरीद, इस साल के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है।

जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में, शहर में दाखिल होने वाली जगहों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को यह सलाह दी जा सके कि ए.एस.ई. लागू है और कम्युनिटी में तेज़ गति को सहन नहीं किया जा रहा है।

### पृष्ठभूमि

- ए.एस.ई., जो हिस्सा लेने वाली चुनिंदा म्युनिसिपल्टीज के साथ, प्रांतीय तौर पर कानूनी है, लोकल समुदायों के लिए सुरक्षा और आराम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है – विशेषकर बच्चों जैसे, सड़क के अधिक नाजुक उपयोगकर्ताओं के लिए।

- ए.एस.ई. एक ऑटोमेटिड सिस्टम है, जो स्पीड सीमाएं लागू करने के लिए कैमरे और स्पीड माप उपकरण का प्रयोग करता है।
- ए.एस.ई., स्कूल ज़ोन्स और कम्युनिटी सेफ्टी ज़ोन्स में, साइन बोर्डों पर लिखी स्पीड सीमा से तेज़ गति से चलने वाले वाहनों के चित्र खींचता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। रजिस्टर्ड प्लेट होल्डर को टिकटें जारी की जाती हैं, चाहे वाहन कोई भी चला रहा हो।
- कानून, स्कूल ज़ोन्स और कम्युनिटी सेफ्टी ज़ोन्स में और 80 कि.मी. प्रति घंटा से कम स्पीड सीमा वाले रोडवेज पर ए.एस.ई. लगाने की अनुमति देता है।
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 19 दिसम्बर, 2019 में अपना पहला सूचना साइन बोर्ड पेश करते हुए, ए.एस.ई. लागू करने वाली पहली म्युनिसिपल्टीज में से एक थी।

ए.एस.ई. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

### हवाले

“ब्रैम्पटन में तेज़ गति के लिए पूरी तरह से ज़ीरो सहनशीलता है। हमारी काउंसिल इस संदेश को स्पष्ट करने के उपाय करना जारी रखेगी। हमारे शहर में 200 स्थानों पर ऑटोमेटिड स्पीड एन्फोर्समेंट को बढ़ाने जैसे उपायों के द्वारा, हम वाहन संबंधी घटनाओं को कम करने और हमारे सड़क संबंधी उपयोगकर्ताओं, विशेषकर सबसे अधिक नाजुक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन में अतिरिक्त ए.एस.ई. को मंजूरी देकर, हम सभी वाहन चालकों को संकेत दे रहे हैं कि हमारे समुदाय में तेज़ गति सहन नहीं की जाती और उन्हें सड़क साइड़ी करने के बारे में याद दिला रहे हैं। इस साल, वोडन स्ट्रीट पर ए.एस.ई. लगाने के बाद, काउंसिल ने सुरक्षित, गतिशील यातायात को बढ़ाने और इसे सहयोग करने के लिए, पास में ही अस्थायी बाइक लेन्स की भी शुरुआत की थी। हमारी प्राथमिकता स्ट्रीट फॉर पीपल (लोगों के लिए सड़कें) बनाने की है, ताकि हम पूरे ब्रैम्पटन को सुरक्षित रूप से गतिशील रख पाएं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ऑटोमेटिड स्पीड एन्फोर्समेंट इस बात का रिमाइंडर है कि हम सभी को वाहन धीरे चलाने चाहिए और यह कि हम सभी, अपने समुदायों को सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ए.एस.ई. पेश करने वाले पहले शहरों में से एक के तौर पर, हम हमारे निवासियों को दिखा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे उच्च प्राथमिकता है।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी रोड्स मॉटेनेंस एंड ट्रेफिक सर्विसिज की टीम यह सुनिश्चित करने में जरूरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सड़कें, पगडंडियां और ट्रेफिक सिस्टम सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से पहले और इसके दौरान, हमारे

कर्मचारी, हमारे समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने और इसे सहयोग करने के लिए, ऑटोमेटिड स्पीड एन्फोर्समेंट को लागू करने के लिए परदे के पीछे काम कर रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)